



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं० पटना 458) पटना, बुधवार, 20 मार्च 2019

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना
7 फरवरी 2018

सं० 2360—पटना जिलान्तर्गत श्री श्री 108 राम लखन जानकी मंदिर (रवियो ठाकुरबाड़ी), रवियो, थाना— सिरदला, पो०— वडगांव, जिला— नवादा पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं०— 4468 है।

इस न्यास के संबंध में स्थानीय जनता द्वारा एक आवेदन दिनांक— 18/01/17 पर्षद कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन में न्यास का निबंधन पर्षद में किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ। इसके आलोक में पर्षदीय पत्रांक— 2938, दिनांक— 09/02/17 द्वारा अंचलाधिकारी, नवादा को न्यास स्थल के जांच हेतु पत्र दिया गया। तदनुसार अंचलाधिकारी, सिरदला, जिला— नवादा का जांच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु पर्षद में प्राप्त हुआ। उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में न्यास के निबंधन का निर्णय लिया गया और पर्षदीय पत्रांक— 379, दिनांक— 25/05/17 द्वारा स्थानीय श्री साधु महतो को न्यास का निबंधन पर्षद में करवाने का निर्देश निर्गत किया गया। तत्पश्चात न्यास का पर्षद में निबंधन किया गया। साथ ही अंचलाधिकारी, सिरदला, नवादा द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु 11 व्यक्तियों की सूची उनके पदनाम सहित प्रस्ताव पर्षद को प्राप्त हुआ। अंचलाधिकारी द्वारा प्राप्त नामों के चरित्र—सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक— 954, दिनांक— 29/07/17 द्वारा थाना प्रभारी, सिरदला को पत्र प्रेषित किया गया। इसके आलोक में थाना प्रभारी, सिरदला का प्रतिवेदन “कॉलम 01 से 11 तक सिरदला थाना अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इनके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं है।” की टिप्पणी के साथ पर्षद को प्राप्त हुआ।

उक्त परिस्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950, की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालन के लिए न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 8 (क) सह पठित धारा— 32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 राम लखन जानकी मंदिर (रवियो ठाकुरबाड़ी), रवियो, थाना— सिरदला, पो०— वडगांव, जिला— नवादा के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री श्री 108 राम लखन जानकी मंदिर (रवियो ठाकुरबाड़ी) न्यास योजना, रवियो, थाना— सिरदला, पो०— वडगांव, जिला— नवादा”

होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री श्री 108 राम लखन जानकी मंदिर (रबियो ठाकुरबाड़ी) न्यास समिति, रबियो, थाना— सिरदला, पो0— वडगांव, जिला— नवादा” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी मार्गदर्शिका के आलोक में देय होगा।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमिता/हस्तारित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|--|-------------|
| 1. श्री पिन्दु सिंह पिता— श्री आनन्दी प्र० सिंह— | अध्यक्ष। |
| 2. श्री बच्चु महतो पिता— स्व० रामा माहतो— | सचिव। |
| 3. श्री सत्येन्द्र नारायण पिता— स्व० बाढ़ो माहतो— | कोषाध्यक्ष। |
| 4. श्री साधु माहतो पिता— स्व० रामेश्वर माहतो— | सदस्य। |
| 5. श्री जयराम रविदास पिता— राजकुमार रविदास— | सदस्य। |
| 6. श्री सत्येन्द्र राजवंशी पिता— स्व० रामाधिन राजवंशी— | सदस्य। |
| 7. श्रीमति निककी देवी पति— श्री निरंजन गिरी— | सदस्य। |
| 8. श्री अश्विनी प्रसाद पिता— जागो माहतो— | सदस्य। |
| 9. श्री अवधेश शर्मा पिता— बाबूलाल शर्मा— | सदस्य। |
| 10. श्री सुरेश पाण्डेय पिता— स्व० शिवनन्दन पाण्डेय— | सदस्य। |
| 11. श्री भीम सिंह पिता— स्व० लखन सिंह— | सदस्य। |
| सभी का पता— रबियो, बडगांव, जिला— नवादा। | |
| 12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी। | |

विश्वासभाजन,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 458-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>